

वैदिक वर्षफल (18)

(18:10:2022 To 17:10:2023)

Name - Sample

Date - 18/10/2005 Time - 17:30:00

POB - Ballia (U.P.), INDIA

Longitude - 084:10:00 E

Latitude - 025:45:00 N



PAWAN KUMAR VERMA

ASTRO RESEARCH CENTER

Contact - 9417311379

© RED ASTRO 11 Professional



मुख्य विवरण		अवकहड़ा चक्र	
लिंग	पुरुष	पाया	स्वर्ण
जन्म दिनांक	18 अक्टुबर 2005	वर्ण	क्षत्रिय
जन्म समय	17:30:00	वश्य	चतुशपद
जन्म दिन	मंगलवार	योनि	हस्त (पु०)
जन्म स्थान	Ballia (U.P.)	गण	मनुष्य
राज्य		नाडी	मध्य
देश	INDIA	रज्जु	कटि
अक्षांश	025:45:00 N	तत्व	पृथ्वी
रेखांश	084:10:00 E	तत्त्वाधिपति	बुध
स्थानीय समय संस्कार	00:06:40 hrs	विहग	भारधंक
स्थानीय समय	17:36:40 hrs	नाडी पद	मध्य
समय क्षेत्र	05:30 E	वेध	अनुराधा
समय संशोधन	00:00:00	आद्याक्षर	ली
सांपातिक काल	19:24:58 hrs	अयनांश	N.C.Lahiri
इष्ट काल	28: 54: 14 Ghati	अयनांश मान	023:56:17

वर्षफल विवरण (18)

18:10:2022 - 17:10:2023

वर्ष प्रवेश दिन 19:10:2022

वर्ष प्रवेश समय 02:05 AM



जन्मलग्न अधिपति
मंगल




वर्षलग्न अधिपति
सूर्य (3.99)




वर्षेश्वर
मंगल



मुन्थापति
बुध (15.87)



दिवात्रि पति
चन्द्रमा (15.85)



त्रिराशि पति
सूर्य (3.99)

अगामी 12 मास के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु

शुभ बिन्दु

मंगलवार, रविवार, वृहस्पतिवार शुभ दिन	मंगल, सूर्य, गुरु शुभ ग्रह	तुला, मकर, मीन, वृष मित्र राशि
वृश्चिक, कुम्भ, मेष, मिथुन मित्र लग्न	माणिक्य शुभ रत्न	रक्तमणि, लालतुर्मली शुभ उपरत्न
मूंगा भाग्य रत्न	सूय अनुकूल देवता	ताम्र शुभ धातु
लाल शुभ रंग	पूर्व दिशा	सूर्योदय शुभ समय
गुड़, केसर, मूंगा, रक्तचंदन शुभ पदार्थ	गेह शुभ अन्न	घी शुभ द्रव्य

अशुभ बिन्दु

पौष अशुभ मास	बुधवार अशुभ वार	3 अशुभ प्रहर
सिंह अशुभ राशि	तुला अशुभ लग्न	2, 7, 12 अशुभ तिथि
अनुराधा अशुभ नक्षत्र	धृति अशुभ योग	नाग अशुभ करन



वर्षफल विवरण 18:10:2022 - 17:10:2023



जन्म कुण्डली

वर्षफल कुण्डली

Star (Pada)	Degree	Sign	Planet	Sign	Degree	Star (Pada)
अश्विनी (2)	04:42:25	मेष	लग्न	सिंह	09:08:57	मघा (3)
चित्रा (3)	01:16:13	तुला	सूर्य	तुला	01:16:12	चित्रा (3)
भरणी (1)	14:09:26	मेष	चन्द्रमा	कर्क	13:42:03	पुष्य (4)
कृत्तिका (1)	27:24:57	मेष	मंगल	मिथुन	00:29:36	मृगशिर (3)
विशाखा (1)	20:30:22	तुला	बुध	कन्या	17:26:24	हस्ता (3)
चित्रा (4)	04:24:16	तुला	गुरु	मीन	06:45:08	उत्तरभाद्र (2)
ज्येष्ठा (1)	17:31:21	वृश्चिक	शुक्र	तुला	00:13:51	चित्रा (3)
पुष्य (4)	16:16:01	कर्क	शनि	मकर	24:25:56	धनिष्ठा (1)
रेवती (1)	19:00:12	मीन	राहु	मेष	19:57:25	भरणी (2)
हस्ता (3)	19:00:12	कन्या	केतु	तुला	19:57:25	स्वाति (4)

जन्म लग्न कुण्डली

वर्षफल लग्न कुण्डली



वर्षफल विवरण (18)



18:10:2022 - 17:10:2023

जन्म कुण्डली

वर्षफल कुण्डली



जन्म चन्द्र कुण्डली

वर्षफल चन्द्र कुण्डली



जन्म नवांश कुण्डली

वर्षफल नवांश कुण्डली



वार्षिक भविष्यफल (2022 - 2023)

इस वर्ष की आपकी वर्षफल कुण्डली में, वर्षेश्वर मंगल है। अतः यह आपको अपने सगे व चचेरे भाई-बहनों व पड़ोसियों आदि के संदर्भ में तथा उनसे प्राप्त होने वाली सहायता व समर्थन के मामलों में भाग्यशाली बनाएगा। आपको अधिकारियों से समर्थन व लाभ प्राप्त होगा तथा आपके मान व महत्व में वृद्धि होगी। यदि आप नए रोजगार की तलाश में हैं तो आप एक आकर्षक नया रोजगार प्राप्त करने में सफल होंगे। विवादों व प्रतिस्पर्द्धाओं के संदर्भ में आप विजेता बनकर उभरेंगे तथा आपके शत्रु पूर्णतः परास्त होंगे। इसके अतिरिक्त आप भूमि-भवन, सम्पत्ति के किराया, मशीनों, रसायनों, अग्नि से संबंधित उपकरणों एवं पालतू मांसाहारी जानवरों से उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे।

इस वर्ष की आपकी वर्षफल कुण्डली में, मुन्था दूसरे भाव में है। अतः यह अत्यंत अनुकूल स्थिति है तथा आप अनेक मामलों में भाग्यशाली होंगे। आपको अपने वरिष्ठों से समर्थन प्राप्त होगा एवं सरकारी स्रोतों से लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप पुराने मकानों के क्रय-विक्रय से उत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं एवं शेयर, सट्टा आदि जैसे अनुमानित निवेशों से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आय एवं संचित धन में काफी वृद्धि होगी। आप उत्तम व स्वादिष्ट भोजन का आनन्द प्राप्त करेंगे एवं आपका घरेलू जीवन बहुत सुखमय व शांतिपूर्ण होगा।

महत्वपूर्ण समयान्तर




केतु दशा

18:10:2022 To
07:11:2022



शुक्र दशा

08:11:2022 To
07:01:2023



सूर्य दशा

08:01:2023 To
25:01:2023



चन्द्रमा दशा

26:01:2023 To
24:02:2023



मंगल दशा

25:02:2023 To
18:03:2023



राहु दशा

19:03:2023 To
11:05:2023




गुरु दशा

12:05:2023 To
29:06:2023



शनि दशा

30:06:2023 To
26:08:2023



बुध दशा

27:08:2023 To
17:10:2023



केतु का समय (18:10:2022 – 07:11:2022)



स्वास्थ्य और आरोग्य

आप इस समयावधि के दौरान कुछ स्वास्थ्य समस्याओं या अप्रत्याशित बीमारियों का अनुभव कर सकते हैं। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है।



शैक्षणिक भविष्य

यह आगे की शिक्षा प्राप्त करने या अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए एक अच्छी समयावधि हो सकती है। आप आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक विषयों के प्रति अधिक आकर्षित महसूस कर सकते हैं, और इन रुचियों को पूरा करने में पूर्णता पा सकते हैं।



व्यवसाय/जॉब/नौकरी

इस समयावधि के दौरान आपका करियर एक अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है। आप दिशा या स्पष्टता की कमी महसूस कर सकते हैं, और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की आवश्यकता हो सकती है। यह आपके कौशल में सुधार और अपने पेशेवर नेटवर्क के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने का एक अच्छा समय है।



आर्थिक गतिविधि

यह आपके लिए आर्थिक रूप से सर्वाधिक स्थिर समयावधि नहीं हो सकती है। आप अप्रत्याशित व्यय या अपनी आय में परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। सावधानीपूर्वक बजट बनाना और किसी भी वित्तीय मामले का सामना करने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है।



विवाह/प्रेम/रोमांस

यह आपके रोमांटिक रिश्तों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समयावधि हो सकती है। आप अपने साथी से कम जुड़ाव महसूस कर सकते हैं या अपने रिश्ते की स्थिति में अप्रत्याशित बदलाव का अनुभव कर सकते हैं। गलतफहमी से बचने के लिए अपने साथी के साथ अपने संवाद में ईमानदार और स्पष्ट होना महत्वपूर्ण है।



पारिवारिक जीवन

इस समयावधि के दौरान आपका पारिवारिक जीवन बाधित या परिवर्तित हो सकता है। आप अपने परिवार से अलग महसूस कर सकते हैं या उनके साथ अपने रिश्तों में बदलाव का अनुभव कर सकते हैं। गलतफहमी को रोकने के लिए संवाद करते रहना और संवाद के लिए मार्ग खुला रखना महत्वपूर्ण है।



संतान पक्ष

इस समयावधि के दौरान आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता बदल सकता है या बाधित हो सकता है। आप उनसे कम जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, या अपने रिश्ते में अप्रत्याशित बदलाव का अनुभव कर सकते हैं। इस समय के दौरान खुला संवाद बनाए रखना और अपने बच्चों के लिए उपस्थित रहना महत्वपूर्ण है।



यात्रा/ भ्रमण

इस समयावधि के दौरान यात्रा बाधित या कठिन हो सकती है। बदलती परिस्थितियों के लिए लचीला और अनुकूल होना और अप्रत्याशित परिवर्तन या रद्दीकरण के मामले में बैकअप योजना होना महत्वपूर्ण है।



युक्तियाँ और सलाह

यह अप्रत्याशित परिवर्तनों और व्यवधानों की समय अवधि हो सकती है। परिवर्तनशील होना और बदलती परिस्थितियों में अनुकूल ढल जाना तथा अपने आसपास के लोगों के साथ खुला संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और किसी भी आकस्मिक आर्थिक स्थिति के लिए तैयार रहें, जो आपके रास्ते में आ सकते हैं। अपने कौशल में सुधार और अपने ज्ञान का विस्तार करने पर ध्यान दें, और नई रुचियों और शौक की खोज के लिए मार्ग खुला रखें।



शुक्र का समय (08:11:2022 – 07:01:2023)



स्वास्थ्य और आरोग्य

यह समयावधि अच्छे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का संकेत कर सकती है। हालांकि, गले, बाहों और कंधों से संबंधित मामूली स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें। स्वस्थ आहार और जीवन शैली को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।



शैक्षणिक भविष्य

शुक्र की यह स्थिति शिक्षा में सफलता का संकेत दे सकती है, विशेष रूप से संचार से संबंधित क्षेत्रों में। आपको विदेश में अध्ययन करने या अपनी रुचि के अनुसार कोई नया कोर्स करने का अवसर भी मिल सकता है।



व्यवसाय/जॉब/नौकरी

यह समय लेखन, मीडिया, पत्रकारिता, या विपणन जैसे संचार-संबंधी व्यवसायों में सफलता का संकेत दे सकता है। आपके अपने सहयोगियों और वरिष्ठों के साथ भी अच्छे संबंध हो सकते हैं। नेटवर्किंग, नए संपर्क बनाने और नए कौशल सीखने के लिए यह एक अच्छा समय है।



आर्थिक गतिविधि

यह समयावधि आगामी समय में एक अच्छी वित्तीय स्थिति का संकेत देती है। आप अपने संचार कौशल, व्यावसायिक सौदों या विपणन रणनीतियों के माध्यम से कुछ अप्रत्याशित लाभ और मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अधिक खर्च और अनावश्यक व्यय से बचें।



विवाह/प्रेम/रोमांस

जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए रोमांटिक साथी खोजने का यह एक अनुकूल समय है। सामाजिककरण और नए रोमांटिक रिश्ते बनाने की इच्छा बढ़ सकती है। विवाहित जोड़ों के लिए, यह ग्रह स्थिति रिश्ते में अधिक सद्भाव और समझ ला सकता है।



पारिवारिक जीवन

यह समयावधि परिवार के भीतर सद्भाव और समझ ला सकती है। आपको अपने भाई-बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का मौका मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ एक छोटी यात्रा या छुट्टी भी व्यतीत हो सकती है।



संतान पक्ष

शुक्र की यह स्थिति बच्चों या छोटे भाई-बहनों के माध्यम से आनंद और खुशी ला सकती है। आप अपने सामाजिक दायरे में बच्चों या छोटे लोगों के साथ अधिक मेलजोल भी रख सकते हैं।



यात्रा/ भ्रमण

इस समयावधि में काम या शिक्षा से संबंधित कुछ छोटी या बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। ये यात्राएं फलदायी और सुखद हो सकती हैं, लेकिन वाहन चलाते समय या यात्रा करते समय सतर्क रहें।



युक्तियाँ और सलाह

यह आपके संचार कौशल पर काम करने और नए संपर्क विकसित करने का एक उत्तम समय है। गपशप करने या अनावश्यक बहस में शामिल होने से बचें। एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें और भोजन या विलासिता के अतिभोग से बचें।



सूर्य का समय (08:01:2023 – 25:01:2023)



स्वास्थ्य और आरोग्य

आप इस समयावधि में अपने कंधों, बाहों, या हाथों से संबंधित कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सकीय ध्यान देना महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में मदद करेगा।



शैक्षणिक भविष्य

यह शिक्षा और सीखने के लिए एक अनुकूल समयावधि है। आप नई अवधारणाओं को आसानी से समझ पाएंगे और उन्नत डिग्री या प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं। अपने ज्ञान का विस्तार करने और नई रुचियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु उत्तम समय है।



व्यवसाय/जॉब/नौकरी

यह समयावधि करियर एवं व्यावसायिक विकास के लिए उत्तम है, विशेषकर यदि आप संचार, लेखन या प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपको अपने कार्य के लिए पहचान प्राप्त हो सकती है तथा विकास व उन्नति के लिए नए अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। यह समय अपने कौशल का विस्तार करने एवं नई चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्तम है।



आर्थिक गतिविधि

यह वित्तीय मामलों के लिए एक अच्छी समयावधि है, लेकिन आपको अपने खर्च से सावधान रहने की जरूरत है। आप अपनी आय में उतार-चढ़ाव का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए अपने खर्चों पर ध्यान देना और अनावश्यक खरीदारी से बचना महत्वपूर्ण है। यह एक दीर्घकालिक वित्तीय योजना पर ध्यान केंद्रित करने हेतु अच्छा समय है।



विवाह/प्रेम/रोमांस

यदि आप अविवाहित हैं, तो किसी नए व्यक्ति से मिलने का यह एक अच्छा समय है। आप किसी में रोमांटिक रुचि विकसित कर सकते हैं, और यह रिश्ता एक गहरी प्रतिबद्धता में विकसित हो सकता है। यदि आप पहले से ही एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं, तो अपने साथी के साथ अपने संवाद और समझ को बेहतर बनाने के लिए काम करने का यह अच्छा समय है।



पारिवारिक जीवन

आपका पारिवारिक जीवन स्थिर और सामंजस्यपूर्ण होगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध का आनंद लेंगे और उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के अवसर हो सकते हैं। अपने प्रियजनों के साथ अपने संवाद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु यह एक अच्छा समय है।



संतान पक्ष

यदि आपके बच्चे हैं, तो यह उनके लिए एक अनुकूल समयावधि है। वे अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और पाठ्येतर गतिविधियों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ एक मजबूत और सहयोगपूर्ण संबंध का आनंद लेंगे, और उनसे आपको खुशी व सुख मिलेगा।



यात्रा/ भ्रमण

आपके पास इस समयावधि में यात्रा करने के अवसर हो सकते हैं, विशेष रूप से काम या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए। यह नए स्थानों का पता लगाने और नए दृष्टिकोण प्राप्त करने का एक अच्छा समय है। हालांकि, यात्रा करते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।



युक्तियाँ और सलाह

यह संवाद, अधिगम और बौद्धिक अन्वेषण का समय है। अपने ज्ञान का विस्तार करने और नए कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। आप अपनी आय में उतार-चढ़ाव का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए अपने खर्चों व प्रति सचेत रहना और अधिक खर्च से बचना महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें और अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं ताकि एक संतोषजनक और शांतिपूर्ण समय अवधि का आनंद उठा सकें।



चन्द्रमा का समय (26:01:2023 – 24:02:2023)



स्वास्थ्य और आरोग्य

यह समयावधि बताती है कि आप भावनात्मक तनाव का अनुभव कर सकते हैं, जो आपके समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ध्यान या चिकित्सा के माध्यम से अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना महत्वपूर्ण है। अनावश्यक जोखिम लेने से बचें, और स्वयं की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करें।



शैक्षणिक भविष्य

यह समयावधि आपकी शैक्षिक गतिविधियों के लिए अनुकूल नहीं हो सकती है। आपको अपनी शैक्षणिक प्रगति में असफलता या देरी का अनुभव हो सकता है, और ध्यान केंद्रित करना एवं धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, तो बेहतर समय के लिए प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है।



व्यवसाय/जॉब/नौकरी

इस समयावधि में आपके करियर में चुनौतियां आ सकती हैं। आपको आघात या विलम्ब का सामना करना पड़ सकता है तथा आपकी उन्नति अपेक्षाकृत धीमी गति से हो सकती है। इस समय अवधि के दौरान ध्यान केंद्रित करना और धैर्य बनाये रखना महत्वपूर्ण है और साथ ही करियर से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें।



आर्थिक गतिविधि

इस समयावधि में आपको अपने वित्तीय मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है। आप अप्रत्याशित व्यय या हानि का अनुभव कर सकते हैं, जो आपकी वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। सलाह दी जाती है कि आवेगपूर्व खर्च से बचें और भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें।



विवाह/प्रेम/रोमांस

यह समयावधि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं हो सकती है। आप अपने साथी के साथ भावनात्मक दूरी या संघर्ष का अनुभव कर सकते हैं, जो आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। प्रभावी ढंग से संवाद करना और अपने साथी के साथ एक मजबूत भावनात्मक संबंध बनाने पर काम करना महत्वपूर्ण है।



पारिवारिक जीवन

यह समय अवधि आपके पारिवारिक जीवन में कुछ भावनात्मक तनाव ला सकती है। आप अपने प्रियजनों के साथ गलतफहमी या संघर्ष का अनुभव कर सकते हैं, और किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए प्रभावी ढंग से संवाद करना महत्वपूर्ण है। अपने पारिवारिक जीवन से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें, क्योंकि इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।



संतान पक्ष

यदि आपके बच्चे हैं, तो यह समय अवधि उनके लिए कुछ भावनात्मक तनाव ला सकती है। अपने बच्चों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करना और उन पर कोई अनावश्यक दबाव डालने से बचना महत्वपूर्ण है।



यात्रा/ भ्रमण

यह समयावधि यात्रा के लिए अनुकूल नहीं हो सकती है। आपको देरी या अप्रत्याशित बाधाओं का अनुभव हो सकता है, जो आपकी यात्रा की योजना को प्रभावित कर सकता है। अनावश्यक यात्रा से बचने और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है।



युक्तियाँ और सलाह

यह आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भावनात्मक तनाव और असफलताओं की समयावधि है। ध्यान केंद्रित रखना एवं धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है, और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अपने प्रियजनों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से संवाद करें। अनावश्यक खर्चों और यात्रा से बचें, और भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें।



मंगल का समय (25:02:2023 – 18:03:2023)



स्वास्थ्य और आरोग्य

आप इस समयावधि के दौरान अच्छे स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जा के स्तर का आनंद ले सकते हैं। हालांकि, एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखना और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक है।



शैक्षणिक भविष्य

यह समयावधि शैक्षिक गतिविधियों में सफलता दिला सकती है, और आप अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। आप आगे के अध्ययन या शोध पर भी विचार कर सकते हैं।



व्यवसाय/जॉब/नौकरी

यह समय अवधि आपके करियर में सफलता ला सकती है, और आप अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने कठोर परिश्रम के लिए पहचान और सराहना मिल सकती है, जिससे आपके करियर में नए अवसर की प्राप्ति और उन्नति हो सकती है।



आर्थिक गतिविधि

इस समयावधि के दौरान आपको अपनी आय और वित्तीय लाभ में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपको निवेश या सट्टा के माध्यम से कुछ अप्रत्याशित लाभ भी हो सकते हैं। हालांकि, वित्तीय मामलों में सतर्क रहना और लापरवाही न बरतना आवश्यक है।



विवाह/प्रेम/रोमांस

यह समयावधि आपके प्रेम संबंध में या वैवाहिक जीवन में आनंद और खुशी ला सकती है। आप अपने साथी के साथ एक गहरा संबंध विकसित कर सकते हैं और एक रोमांटिक और भावुक रिश्ते का अनुभव कर सकते हैं।



पारिवारिक जीवन

आप इस समय अवधि के दौरान एक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन का आनंद ले सकते हैं। आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं, और आप उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं।



संतान पक्ष

यदि आपके बच्चे हैं, तो यह समय अवधि उनके जीवन में सकारात्मक विकास ला सकती है। वे शैक्षणिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं या अपने शौक और रुचियों में प्रगति कर सकते हैं।



यात्रा/ भ्रमण

इस समयावधि के दौरान आपके पास काम या अवकाश के लिए यात्रा के अवसर हो सकते हैं। इन अनुभवों का अधिकतम लाभ उठाना और अपने क्षितिज को व्यापक बनाना आवश्यक है।



युक्तियाँ और सलाह

इस समयावधि के दौरान, अपने जीवन के लिए एक संतुलित और अनुशासित दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता और विकास का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जमीन से जुड़े रहना और विनम्र बने रहना आवश्यक है। खुला संवाद बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है तथा अपने रिश्तों में परस्पर सम्मान और समझदारी दिखाएं। कुल मिलाकर, यह अवधि आपके जीवन में सकारात्मक विकास और उन्नति के अवसर ला सकती है।



राहु का समय (19:03:2023 – 11:05:2023)



स्वास्थ्य और आरोग्य

इस समयावधि में, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। आपको सर्दी या लू जैसी मामूली स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उचित देखभाल और ध्यान से इन्हें आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है। समग्र तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार लेने की भी सलाह दी जाती है।



शैक्षणिक भविष्य

इस समयावधि में, आपके पास अपने ज्ञान और कौशल का विस्तार करने का अवसर हो सकता है। अपने करियर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम या कार्यशाला जैसे किसी भी शैक्षिक अवसर का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है।



व्यवसाय/जॉब/नौकरी

यह समयावधि आपके करियर में बदलाव ला सकती है, जैसे नई नौकरी या प्रमोशन। हालांकि, सतर्क रहना और अनावश्यक जोखिम लेने से बचना महत्वपूर्ण है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन समर्पण और दृढ़ता के साथ आप सफल हो सकते हैं।



आर्थिक गतिविधि

इस समयावधि में, आप अपनी वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव का अनुभव कर सकते हैं। अप्रत्याशित व्यय या निवेश सामने आ सकते हैं, जो आपकी समग्र वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी बड़ी हानि से बचने के लिए अपने खर्च पर ध्यान देना और विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेना आवश्यक है।



विवाह/प्रेम/रोमांस

इस समयावधि में, आपके प्रेम संबंध में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आप अपने वर्तमान संबंधों में चुनौतियों का अनुभव कर सकते हैं, या आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके जीवन में उत्साह और जुनून लाता है। स्वयं के और अपने साथी के साथ ईमानदार होना और स्वस्थ व खुशहाल रिश्ते को बनाए रखने के लिए खुलकर संवाद करना आवश्यक है।



पारिवारिक जीवन

आप इस समयावधि में परिवार के भीतर कुछ मामूली टकरावों या गलतफहमियों का अनुभव कर सकते हैं। परिवार के भीतर सद्भाव बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से संवाद करना और किसी भी मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना महत्वपूर्ण है।



संतान पक्ष

इस समयावधि में, आपको अपने बच्चों के साथ कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि उनके शैक्षणिक प्रदर्शन या व्यवहार संबंधी समस्याएं। उन्हें मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करना और उनकी चिंताओं को समझने और किसी भी मुद्दे को संबोधित करने के लिए खुले तौर पर संवाद करना महत्वपूर्ण है।



यात्रा/ भ्रमण

इस समयावधि में, यात्रा के अवसर हो सकते हैं, जैसे काम या व्यक्तिगत कारणों से। अंतिम-मिनट के किसी भी मुद्दे या देरी से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाना और व्यवस्थित करना आवश्यक है।



युक्तियाँ और सलाह

सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना तथा नए अवसरों एवं अनुभव के लिए मार्ग खुला रखना महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से वित्तीय मामलों में सतर्क रहना और अनावश्यक जोखिम लेने से बचना भी महत्वपूर्ण है। संवाद जीवन के सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण है, चाहे वह आपके व्यक्तिगत संबंधों में हो या आपके करियर में।



गुरु का समय (12:05:2023 – 29:06:2023)



स्वास्थ्य और आरोग्य

यह समयावधि गहरे आंतरिक परिवर्तन और उपचार के समय का संकेत कर सकती है। आपको वैकल्पिक स्वास्थ्य उपचारों की तलाश करने और अपनी भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने से लाभ हो सकता है।



शैक्षणिक भविष्य

यह शिक्षा और सीखने के लिए एक अच्छा समय है, विशेष रूप से मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता से संबंधित। आप इन क्षेत्रों में सलाहकारों या शिक्षकों के मार्गदर्शन से लाभान्वित हो सकते हैं।



व्यवसाय/जॉब/नौकरी

आपके करियर पथ में किसी रूपान्तरण या परिवर्तन का संकेत मिल सकता है। आपको नए अवसरों की तलाश करने और अपने कार्य के वातावरण में परिवर्तन के लिए द्वार खुला रखने से लाभ हो सकता है। यह मजबूत व्यावसायिक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी उत्तम समय है।



आर्थिक गतिविधि

यह समयावधि आपकी वित्तीय स्थिति में अप्रत्याशित लाभ या हानि का संकेत देती है। आपको निवेश के प्रति सतर्क रहने और किसी भी जोखिम भरे वित्तीय उपक्रम से बचने से लाभ हो सकता है। यह दीर्घकालिक वित्तीय योजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी एक उत्तम समय है।



विवाह/प्रेम/रोमांस

उन लोगों के लिए जो अविवाहित हैं, बृहस्पति गहरे आंतरिक परिवर्तन के समय का संकेत दे सकता है जो एक नए साथी को आकर्षित कर सकता है। जो लोग प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं या विवाहित हैं, वो कुछ चुनौतियों का अनुभव कर सकते हैं जिनका हल करने के लिए गहरे स्तर की प्रतिबद्धता और संवाद की आवश्यकता हो सकती है।



पारिवारिक जीवन

यह समयावधि आपके पारिवारिक जीवन में कुछ बदलावों और परिवर्तनों का संकेत दे सकती है, विशेष रूप से विरासत या संयुक्त संपत्ति से संबंधित। आप पारदर्शी होने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुले रहने और किसी भी संघर्ष को हल करने के लिए मिलकर काम करने से लाभान्वित हो सकते हैं।



संतान पक्ष

यदि आपके बच्चे हैं, तो बृहस्पति उनके साथ आपके संबंधों में रूपान्तरण और परिवर्तन का संकेत दे सकता है। आपको उनके साथ खुले और ईमानदार होने और किसी भी चुनौती का सामना करने में उनका समर्थन करने से लाभ हो सकता है।



यात्रा/ भ्रमण

यह समयावधि अप्रत्याशित या परिवर्तनकारी यात्रा अनुभवों को इंगित कर सकता है। आप नए अनुभवों और अवसरों के लिए तैयार रहने से लाभान्वित हो सकते हैं, विशेष रूप से आध्यात्मिक या भावनात्मक विकास से संबंधित।



युक्तियाँ और सलाह

यह समय अवधि गहरे आंतरिक परिवर्तन और रूपान्तरण के समय का संकेत कर सकती है। नए अनुभवों और अवसरों के लिए मार्ग खुला रखना, साथ ही जीवन में होने वाले किसी भी बड़े बदलाव से सावधान रहना महत्वपूर्ण है। किसी भी चुनौती या बदलाव के दौरान आध्यात्मिक या भावनात्मक मार्गदर्शन प्राप्त करने से भी आपको लाभ हो सकता है।



शनि का समय (30:06:2023 – 26:08:2023)



स्वास्थ्य और आरोग्य

यह समयावधि कुछ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ ला सकती है, विशेष रूप से पाचन तंत्र या त्वचा से संबंधित। आपको अपने स्वास्थ्य का अतिरिक्त ध्यान रखने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है।



शैक्षणिक भविष्य

यह समयावधि शैक्षिक गतिविधियों के लिए अनुकूल है, और आप अपने अध्ययन या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। इस समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको एकाग्रचित और अनुशासित रहने की आवश्यकता है।



व्यवसाय/जॉब/नौकरी

इस समयावधि में व्यावसायिक रूप से पुरस्कार होने की संभावना है, और आप अपने करियर में महत्वपूर्ण वृद्धि देख सकते हैं। हालाँकि, आपको इस अवधि का अधिकतम लाभ उठाने के लिए ध्यान केंद्रित करने और कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है।



आर्थिक गतिविधि

इस समयावधि के दौरान आपको कुछ वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ, आप उन्हें दूर कर सकते हैं। बचत पर ध्यान देने और बुद्धिमानी से निवेश करने हेतु यह एक अच्छा समय है।



विवाह/प्रेम/रोमांस

जो लोग एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समयावधि चुनौतीपूर्ण हो सकती है, और आपको सद्भाव बनाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। अविवाहितों के लिए, यह रोमांटिक साथी खोजने के लिए बहुत अनुकूल अवधि नहीं है।



पारिवारिक जीवन

इस समय अवधि के दौरान आपका पारिवारिक जीवन स्थिर और शांतिपूर्ण रहने की संभावना है। आपको अपने परिवार के सदस्यों का समर्थन और मार्गदर्शन करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर, पारिवारिक मामलों के लिए यह एक अच्छा समय है।



संतान पक्ष

यह समय अवधि आपके बच्चों के समग्र विकास और उन्नति के लिए अनुकूल है। हालाँकि, आपको चुनौतीपूर्ण समय में उनका मार्गदर्शन करने और उनका समर्थन करने की आवश्यकता हो सकती है।



यात्रा/ भ्रमण

इस समयावधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण यात्रा के अवसर नहीं हैं, और अनावश्यक यात्रा से बचना बेहतर है।



युक्तियाँ और सलाह

यह अवधि थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन कठिन परिश्रम, अनुशासन और ढ़ संकल्प के साथ, आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का ध्यान रखें।



बुध का समय (27:08:2023 – 17:10:2023)



स्वास्थ्य और आरोग्य

आप अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि, एक स्वस्थ आहार और व्यायाम की नियमितता बनाए रखना आवश्यक है। आप विश्राम तकनीकों का अभ्यास करने और तनाव से संबंधित किसी भी समस्या से बचने से भी लाभान्वित हो सकते हैं।



शैक्षणिक भविष्य

उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए यह एक अच्छी अवधि है। बुध आपकी पढ़ाई में सकारात्मक विकास ला सकता है, और आप मानसिक स्पष्टता और ध्यान में वृद्धि देख सकते हैं। हालांकि, एक अनुशासित दृष्टिकोण बनाए रखना और किसी भी विकर्षण से बचना आवश्यक है।



व्यवसाय/जॉब/नौकरी

इस समयावधि के दौरान, आप अपने करियर में सकारात्मक विकास का अनुभव कर सकते हैं। आपके संचार कौशल और नेटवर्किंग क्षमताओं में सुधार हो सकता है, जो आपको अपने पेशे में खुद को स्थापित करने में मदद कर सकता है। हालांकि, कुछ चुनौतियाँ और बाधाएँ आ सकती हैं, लेकिन एक सक्रिय दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प के साथ आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।



आर्थिक गतिविधि

यह समयावधि सकारात्मक वित्तीय संभावनाओं को इंगित करती है। आप अपनी आय में वृद्धि देख सकते हैं, और आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है। हालांकि, आवेगपूर्ण निवेश से बचना और अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना आवश्यक है। एक सुनियोजित दृष्टिकोण के साथ, आप वित्तीय स्थिरता और विकास प्राप्त कर सकते हैं।



विवाह/प्रेम/रोमांस

यह समयावधि आपके प्रेम संबंध में सकारात्मक विकास ला सकती है। आपके और आपके साथी के बीच संवाद और समझदारी में वृद्धि हो सकती है, जिससे एक मजबूत बंधन बन सकता है। अविवाहितों के लिए, यह नए रिश्तों को तलाशने का एक अच्छा समय है, लेकिन कसई भी आवेगपूर्ण निर्णय से बचने और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।



पारिवारिक जीवन

यह समयावधि आपके पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और स्थिरता ला सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संवाद में सुधार हो सकता है, और आप अपने रिश्तों में सकारात्मक विकास देख सकते हैं। यह परिवार के सदस्यों के साथ अपने बंधन को मजबूत करने और गुणवत्तापूर्ण समय का आनंद लेने का एक अच्छा समय है।



संतान पक्ष

यह समय अवधि बच्चों से संबंधित सकारात्मक विकास ला सकती है, और आप उनका विकास और प्रगति देख सकते हैं। उन्हें आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना और उनके साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना आवश्यक है।



यात्रा/ भ्रमण

यह समयावधि यात्रा के अवसर ला सकता है, विशेष रूप से कार्य या व्यवसाय से संबंधित। नए क्षेत्रों की खोज और नए संपर्क बनाने से आपको लाभ हो सकता है। हालांकि, यात्रा से जुड़े किसी भी जोखिम से सावधान रहना और प्रभावी ढंग से अपनी यात्राओं की योजना बनाना आवश्यक है।



युक्तियाँ और सलाह

अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें और आवेगपूर्ण निवेश से बचें। अपने करियर में सक्रिय रहें और अनुशासित .स्टिकोण बनाए रखें। पारिवारिक सदस्यों के साथ अपने बंधन को मजबूत करें और उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय का आनंद लें। एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें और किसी भी तनाव से संबंधित मुद्दों से बचें। अध्ययन के लिए अनुशासित .स्टिकोण अपनाएं और किसी भी विकर्षण से बचें। अपनी यात्रा की प्रभावी ढंग से योजना बनाएं और इससे जुड़े किसी भी जोखिम से सावधान रहें। बच्चों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करें और उनके साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखें।



Disclaimer

(1) Please note that an astrological prediction is just an opinion of the astrologer on the basis of the Horoscope and has no scientific authenticity. These predictions are based upon the characteristics, placements, aspects, associations, strengths, weaknesses of the planets and the ability, command over the astrology subject and experience and competence of the astrologer in the Indian Vedic Astrology.

(2) Recommendation for astrological remedies such as gemstones, mantras, yantras etc are often prescribed after diligent study of the client's birth chart and with due exercise of his prudence and judgment. It must be clearly understood that every such prescription is accompanied by a prescribed method and procedure, which is expected to be followed by our clients with diligence MindSutra Software Technologies and its Software Users (Which provided this Report) is not responsible for any claims for negative functioning of any prescription of astrological remedy provided. The remedies you receive should not be used as a substitute for advice, programs, or treatment that you would normally receive from a licensed professional, such as lawyer, doctor, psychiatrist, or financial advisor.

(3) The spiritual and material benefits stated with respect to various astrological forecasts, mantras, yantras, pujas, stones or any other spiritual items as well as other products and services are as per the ancient Indian Scriptures and literature. However, as the socio-economic and religious circumstances have changed a lot since then, neither MindSutra Software Technologies and its Software Users (Which Provided this Report) can be held responsible for non functioning or non fructification of the stated results.

(4) MindSutra Software Technologies and its Software Users (Which Provided this Report) makes no guarantees or representations vis-a-vis the accuracy or consequence of any aspect of the astrological remedy and predictive advice imparted and cannot be held accountable for any interpretation, action, or use that may be made because of information given.

(5) MindSutra Software Technologies and its Software Users (Which provided this Report) ensures complete confidentiality of customer's identity, birth details and the prediction details. MindSutra Software Technologies and its Software Users (Which Provided this Report) further ensures that no use will be made of the information that may come to the knowledge of the management of the site or revealed in the horoscope of the customer. Such information will only be used to communicate to the customer or will be retained in the databank for referencing purpose if you may need to consult in future.

(6) Any type of Legal Claim shall be limited to any amounts you may have paid to MindSutra Software Technologies and its Software Users (Which provided this Report) shall have no other Liability except to the extent permitted by applicable law. In no event will MindSutra Software Technologies and its Software Users (Which provided this Report) be liable for any indirect, consequential, incidental, special, multiple, punitive, or similar damages.

(7) MindSutra Software Technologies and its Software Users (Which Provided this Report) reserves the right to change, modify, add or delete portions of the Terms of Use at any time. Your continued use following any changes in the terms indicates your acceptance to the changes.